



# भारत का राजपत्र

## The Gazette of India

साप्ताहिक/WEEKLY

प्राधिकार से प्रकाशित  
PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 46] नई दिल्ली, शनिवार, नवम्बर 12—नवम्बर 18, 2005 (कार्तिक 21, 1927)  
No. 46] NEW DELHI, SATURDAY, NOVEMBER 12—NOVEMBER 18, 2005 (KARTIKA 21, 1927)

इस भाग में भिन्न पृष्ठ संख्या दी जाती है जिससे कि यह अलग संकलन के रूप में रखा जा सके।  
(Separate paging is given to this Part in order that it may be filed as a separate compilation)

### भाग III—खण्ड 4

#### [PART III—SECTION 4]

[सांविधिक निकायों द्वारा जारी की गई विविध अधिसूचनाएं जिसमें कि आदेश, विज्ञापन और सूचनाएं सम्मिलित हैं]  
[Miscellaneous Notifications including Notifications, Orders, Advertisements and Notices issued by Statutory Bodies]

मुख्यालय

कर्मचारी राज्य बीमा निगम

नई दिल्ली-110002, दिनांक 29 जून 2005

सं. वी-33(13)/8/2000-स्था.4--क.रा.बी. (साधारण) विनियम, 1950 के विनियम-10 के साथ पठित, क.रा.बी. अधिनियम, 1948 की धारा-25 के अनुसरण में, अध्यक्ष, क.रा.बी. निगम ने, क्षेत्रीय बोर्ड, क.रा.बी. निगम, कर्नाटक में श्री एम. पी. श्याम और श्री अयप्पा के स्थान पर श्री पॉल और श्री फारूक अहमद को नियोजकों के प्रतिनिधि के रूप में नामित किया है।

तदनुसार, निगम की अधिसूचना संख्या: वी-33(13)/8/2000-स्था.4 दिनांक 13.2.2003 में क्रम संख्या 6 और 7 पर की प्रविष्टियों के सामने निम्नलिखित प्रविष्टियां प्रतिस्थापित की जाएं :

क्र. सं.	मौजूदा प्रविष्टि	प्रस्तावित प्रविष्टि
1.	श्री एम. पी. श्याम, प्रबन्ध निदेशक, मैसूर फीड्स लिमिटेड, नयन्दाहल्ली मैसूर रोड, बेंगलूर	श्री पॉल, प्रबन्धक, मा. सं. विकास, मै. लक्ष्मी एक्सपोर्ट हाऊस, पो. बॉ. नं. 3449-ए, बेलान्दुर गेट, सरजापुर मेन रोड, बेंगलूर
2.	श्री अयप्पा, अध्यक्ष, नियोजक एसोसिएशन, द्वारा अन्तर्राष्ट्रीय संस्थान, 104, होसूर रोड, बेंगलूर	श्री फारूक अहमद, प्रबन्धक, मा. सं. विकास, ताज रेजीडेन्सी, संख्या-41/3, एम. जी. रोड, बेंगलूर

डॉ. अजय दुआ  
महानिदेशक

संख्या: बी-33(13)/9/2002-स्था.4 : कर्मचारी राज्य बीमा (साधारण) विनियम, 1950 के विनियम 10 के साथ पठित कर्मचारी राज्य बीमा अधिनियम, 1948 (1948 का 34) की धारा 25 के अनुसरण में अध्यक्ष, कर्मचारी राज्य बीमा निगम, मध्य प्रदेश के लिए क्षेत्रीय बोर्ड का गठन करते हैं जिसमें निम्नलिखित सदस्य होंगे, अर्थात्:--

क्र.सं.	प्रतिनिधि का नाम	पदनाम	विनियम
1.	माननीय श्रम मंत्री मध्य प्रदेश सरकार	अध्यक्ष	10(1)(क)
2.	माननीय मंत्री स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मध्य प्रदेश सरकार	उपाध्यक्ष	10(1)(ख)
3.	श्रमायुक्त, मध्य प्रदेश, इंदौर	सदस्य	10(1)(ग)
4.	निवेशक, क.रा.बी.योजना, इन्दौर	सदस्य	10(1)(घ)(i)
5.	राज्य चिकित्सा आयुक्त, क.रा.बी.निगम, पंचदीप भवन, इन्दौर	सदस्य	10(1)(घ)(ii)
6.	श्री के.के.एल. दास, वरिष्ठ उपाध्यक्ष, ग्रामिण स्टेपल फाइबर, बिरलाग्राम, नागदा, जिला उज्जैन	नियोजक प्रतिनिधि	10(1)(ङ)
7.	श्री मनोज मिश्रा, फैक्ट्री मैनेजर, होट लाइन (कलर पिक्चर ट्यूब) मालेनपुर, जिला-भिण्ड	अतिरिक्त नियोजक प्रतिनिधि	10(1) का परंतुक
8.	श्री राकेश शर्मा, वरिष्ठ उपाध्यक्ष, मेहर सीमेण्ट, सरला नगर, मेहर, जिला-सतना	अतिरिक्त नियोजक प्रतिनिधि	विनियम 10(1) का परंतुक
9.	श्री राजेश्वर त्रिपाठी, उप महाप्रबंधक (मानव संसाधन) ईशर मोटर लि., इंडस्ट्रियल एरिया, क्र. सं. 1, पीतमपुर, जिला-धार	अतिरिक्त नियोजक प्रतिनिधि	विनियम 10(1) का परंतुक
10.	श्री मांगी लाल पोरवाल, 44/26, दक्षिण टी.टी. नगर, भोपाल	कर्मचारी प्रतिनिधि	10(1) (ड)
11.	श्री आर. डी. त्रिपाठी, एम. आई. जी-57, 3-ए, साकेत नगर, भोपाल	अतिरिक्त कर्मचारी प्रतिनिधि	विनियम 10(1) का परंतुक

12.	श्री भगवान दास गोंडाने, भारतीय मजदूर संघ, 37, बक्शी गली, समीप रजवाड़ा, इन्दौर	अतिरिक्त कर्मचारी प्रतिनिधि	---वही---
13.	श्री प्रमोद प्रधान, अध्यक्ष, सीटू, बी.टी. रणदिवे, भवन, 13-बी, पद्मनाभ नगर, न्यू सुभाष नगर, भोपाल	अतिरिक्त कर्मचारी प्रतिनिधि	---वही---
14.	प्रधान सचिव, श्रम विभाग मध्य प्रदेश	राज्य में निवासी क.रा.बी. निगम के सदस्य	10(1)(च)
15.	क्षेत्रीय निदेशक, क.रा.बी. निगम, इंदौर	सदस्य सचिव	10(3)

डॉ. अजय दुआ  
महानिदेशक

कर्मचारी भविष्य निधि संगठन (केन्द्रीय कार्यालय)

नई दिल्ली-110066, दिनांक

सं. के.भ.नि.आ./समन्वय/12/1/अधिसूचना/2005/एस. जैड--

सा0 आ0 केन्द्रीय भविष्य निधि आयुक्त को जहाँ प्रतीत होता है कि निम्नलिखित स्थापनाओं से संबंधित नियोक्ता तथा कर्मचारियों का बहुमत इस बात से सहमत हैं कि कर्मचारी भविष्य निधि और प्रकीर्ण उपबन्ध अधिनियम, 1952 (1952 का 19) के उपबन्ध उक्त स्थापनाओं पर लागू किये जायें।

क्र.सं	कोड नं0	स्थापना का नाम	कवरेज की तिथि	सहमति की तिथि
1	एपी/38442	श्री धर्मलिंगेश्वरा एल एस सी एस	02-11-01	02-11-01
2	एपी/22806	मै0 दि वेंकटराया प्रिन्टरस प्रा0 लि0	01-04-93	18-03-93
3	टीएन/एमडी/57173	मै0 आरगुन बायोप्रोसेस प्रा0 लि0	01-11-04	01-11-04
4	टीएन/एमडी/57180	मै0 आर निर्मल कुमार कान्टेक्टर	01-11-04	01-11-04
5	टीएन/44209	मै0 आर एन मैट्रिकुलेशन स्कूल	01-01-04	29-01-04
6	टीएन/एमडी/42945	मै0 एसपी.एसपीएल 133 कुरुन्धामादाम पी ए सी बी	01-09-03	01-09-03
7	टीएन/एमडी/57163	मै0 श्री गोविन्धन फाइन पॉलिमरस	01-10-04	17-11-04
8	टीएन/57176	मै0 श्री नेल्लावन्नन एजेन्सीस	01-11-04	01-11-04
9	टीएन/एमडी/57356	मै0 कामराज कमन्युटी हेल्थ सेंटर	01-01-05	01-01-05
10	टीएन/एमडी/57363	मै0 लक्ष्मी पॉलीप्रिन्टस	01-01-05	01-01-05
11	टीएन/एमडी/42936	मै0 क्यू 652 कोगनकुलम प्राइमरी एग्रीकल्चरल को-ओप बैंक	01-08-03	01-08-03
12	एपी/44396	मै0 साई कैअररस, हैदराबाद	01-04-04	01-04-04
13	एपी/47821	मै0 श्री हार्डवेयर पाइंट	16-12-04	16-12-04

अतः केन्द्रीय भविष्य निधि आयुक्त उक्त अधिनियम की धारा 1 की उपधारा (4) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए उपर्युक्त स्थापनाओं पर उस या उसी प्रभावी तिथि से अधिनियम को लागू करते हैं जो उक्त स्थापनाओं के नाम के सामने दर्शायी गई है

सूरज शर्मा  
क्षेत्रीय भविष्य निधि आयुक्त (मुख्यालय)

सं. के.भ.नि.आ./समन्वय/12/1/2005/अधिसूचना/एस. जैड--

सा0 आ0 केन्द्रीय भविष्य निधि आयुक्त को जहाँ प्रतीत होता है कि निम्नलिखित स्थापनाओं से संबंधित नियोक्ता तथा कर्मचारियों का बहुमत इस बात से सहमत हैं कि कर्मचारी भविष्य निधि और प्रकीर्ण उपबन्ध अधिनियम, 1952 (1952 का 19) के उपबन्ध उक्त स्थापनाओं पर लागू किये जायें ।

क्र.सं.	कोड सं0	स्थापना का नाम	कवरेज की तिथि	सहमति की तिथि
1	केआर21041	मे0 भावना टाईल्स त्रिचुर डि0	1.12.04	1.12.04
2	केआर/16966	मे0 ए के एम मोटरस सर्विस	1.9.04	1.9.04
3	केआर/केएनआर/18288	मे0 पोथन एण्ड पोथन ओटोमोबाईल प्रा0 लि0	1.12.04	1.12.04
4	केआर/केएनआर/18297	मे0 नेशनल कॉलेज	1.2.05	1.2.05
5	केआर/16976	मे0 अराधना आई हॉस्पिटल	1.10.04	1.10.04
6	केआर/17896	मे0 तोफौक ट्रांसपोर्ट कं0	12.04.04	12.04.04
7	केआर/केएनआर/18277	मे0 फातिमा हॉस्पिटल कन्नूर	1.12.04	1.12.04
8	केआर/केसी/21053	मे0 ए.आई.टेक इंडस्ट्रीस, कोच्ची	1.08.04	1.08.04
9	केआर/17944	मे0 सेंट जोसेफ नर्सरी स्कूल	1.11.04	1.11.04
10	केआर/19806	मे0 केल्ट्रान टूल रिसर्च एण्ड ट्रेनिंग सेंटर	1.09.03	1.09.03
11	केआर/19946	मे0 हिन्दुस्तान सियरिंग वर्क्स	29.06.04	29.06.04
12	केआर/केसी/21010	मे0 डेल्टा फाउंडेशनस, कोच्ची	1.11.04	1.11.04

अतः केन्द्रीय भविष्य निधि आयुक्त उक्त अधिनियम की धारा 1 की उपधारा (4) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए उपर्युक्त स्थापनाओं पर उस या उसी प्रभावी तिथि से अधिनियम को लागू करते हैं जो उक्त स्थापनाओं के नाम के सामने दर्शायी गई है ।

सूरज शर्मा  
क्षेत्रीय भविष्य निधि आयुक्त (मुख्यालय)

दिनांक 8 अगस्त 2005

सं. के.भ.नि.आ./समन्वय/12/1/अधिसूचना/2005/एस. जैड--

सा0 आ0 केन्द्रीय भविष्य निधि आयुक्त को जहाँ प्रतीत होता है कि निम्नलिखित स्थापनाओं से संबंधित नियोक्ता तथा कर्मचारियों का बहुमत इस बात से सहमत है कि कर्मचारी भविष्य निधि और प्रकीर्ण उपबन्ध अधिनियम, 1952 (1952 का 19) के उपबन्ध उक्त स्थापनाओं पर लागू किये जाये।

क्र.सं.	कोड सं0	स्थापनाओं का नाम	व्याप्ति एवं सहमति की तिथि	
1	के.आर/11954	वैलीयात्रूर सर्विस को-ओप बैंक लि0	1.8.92	10.8.92
2	के.आर/के.सी/21006	मै0 प्राइम इलेक्ट्रीकल सर्विस	1.9.04	1.9.04
3	के.आर/के.सी/21172	मै0 मेगा मोटर सर्विस	1.12.04	12.10.04
4	के.आर/21115	मै0 श्री एकाध्या एजेन्सीस प्रा0 लि0	1.2.05	1.2.05
5	के.आर/22031	मै0 कन्जयूमर प्रोटेक्शन एण्ड गाइडेंस सोसायटी	1.1.05	29.12.04
6	के.आर/23008	मै0 सोराह ली एण्ड कोल्ड स्टोरेज	1.5.05	1.5.05
7	के.आर/23009	मै0 कालूलविला आईस एण्ड कोल्ड स्टोरेज	1.5.05	1.5.05
8	के.आर/के.सी/21109	मै0 विन्केर टेक्नो मार्केटिंग कम्पनी	1.1.05	31.12.04
9	के.आर/के.सी/21050	मै0 रिलोजीस्टीक (कोच्ची) प्रा0 लि0	1.11.04	11.10.04

अतः केन्द्रीय भविष्य निधि आयुक्त उक्त अधिनियम की धारा 1 की उपधारा (4) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए उपर्युक्त स्थापनाओं पर उस या उसी प्रभावी तिथि से अधिनियम को लागू करते हैं जो उक्त स्थापनाओं के नाम के सामने दर्शायी गई है।

सूरज शर्मा  
क्षेत्रीय भविष्य निधि आयुक्त (मुख्यालय)

दिनांक 21 जून 2005

सं. के.भ.नि.आ./समन्वय/12/1/2005/अधिसूचना/एस. जैड--

सा0 आ0 केन्द्रीय भविष्य निधि आयुक्त को जहाँ प्रतीत होता है कि निम्नलिखित स्थापनाओं से संबंधित नियोक्ता तथा कर्मचारियों का बहुमत इस बात से सहमत हैं कि कर्मचारी भविष्य निधि और प्रकीर्ण उपबन्ध अधिनियम, 1952 (1952 का 19) के उपबन्ध उक्त स्थापनाओं पर लागू किये जाये।

क्र.सं.	कोड सं0	स्थापना का नाम	कबरेज की तिथि	सहमति की तिथि
1	केआर/केसी/21082	मे0 न्यू उदय फार्मसी एण्ड आर्युवेदिक लेबोरेट्रीस	1.11.04	1.4.01
2	केआर/केसी/19882	मे0 के एण्ड बी एच आर सोल्यूशन्स प्रा0 लि0	1.10.03	1.10.03
3	केआर/केसी/2072	मे0 ए एन यू एंटरप्राइजेस	1.12.04	1.12.04
4	केआर/केएनआर/18292	मे0 मैरी माथा आर्ट्स एण्ड साईंस कॉलेज	1.2.05	1.2.05
5	केआर/केएनआर/18289	मे0 देवमाथा आर्ट्स एण्ड साईंस कॉलेज	1.2.05	1.2.05
6	केआर/21046	मे0 बिसन रबडस	1.12.04	1.12.04
7	केआर/22060	मे0 लिक एयर ट्रेवल्स एण्ड टूर (आई) प्रा0 लि0	1.2.05	1.2.05
8	केआर/21068	मे0 राजदूत सुपर सर्विस	1.1.05	1.1.05
9	केआर/21147	मे0 चैतन्य पेन्ट्स प्रा0 लि0	1.1.05	1.1.05
10	केआर/19563	मे0 विसालाक्षी सेरेमिक्स	1.1.02	1.1.02
11	केआर/16066	मे0 क्यूलेन कन्सल्टिंग इंजिनियरस	30.3.97	30.3.97
12	केआर/16944	मे0 आलामाई इमेजेस (आई) प्रा0 लि0	1.6.04	1.6.04
13	केआर/केएनआर/18265	मे0 दृश्या ट्रेवल्स	1.09.04	1.09.04
14	केआर/19287	मे0 बरटेक रबडस	1.5.00	1.5.00
15	केआर/19393	मे0 बरटेक फलेपस	1.9.00	1.9.00
16	केआर/19829	मे0 संतोष सेरेमिक्स	1.12.03	1.12.03
17	केआर/19881	मे0 एम एस एल पी स्कूल	1.3.04	1.3.04
18	केआर/केसी/19952	मे0 सुपरिम इलेक्ट्रीकल इंजि0 प्रा0 लि0	1.8.04	1.8.04
19	केआर/19970	मे0 गुरुदेवा क्ले प्रोडक्ट्स	1.8.04	1.8.04

अतः केन्द्रीय भविष्य निधि आयुक्त उक्त अधिनियम की धारा 1 की उपधारा (4) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए उपर्युक्त स्थापनाओं पर उस या उसी प्रभावी तिथि से अधिनियम को लागू करते हैं जो उक्त स्थापनाओं के नाम के सामने दर्शायी गई है।

सूरज शर्मा  
क्षेत्रीय भविष्य निधि आयुक्त (मुख्यालय)

सं. के.भ.नि.आ./समन्वय/12/1/अधिसूचना/2005/एस. जैड--

सा0 आ0 केन्द्रीय भविष्य निधि आयुक्त को जहाँ प्रतीत होता है कि निम्नलिखित स्थापनाओं से संबंधित नियोक्ता तथा कर्मचारियों का बहुमत इस बात से सहमत हैं कि कर्मचारी भविष्य निधि और प्रकीर्ण उपबन्ध अधिनियम, 1952 (1952 का 19) के उपबन्ध उक्त स्थापनाओं पर लागू किये जाये।

क्र. सं.	कोड नं0	स्थापना का नाम	कबरेज की तिथि	सहमति की तिथि
1	टीएन/65125	मे0 रासी एण्ड कं0	01-04-01	01-04-01
2	पीसी/881	मे0 करायकल फिशरमेन को-ओप मार्केटिंग यूनियन लि0	07-12-98	07-12-98
3	पीसी/1308	मे0 अन्नाई इंडस्ट्रीज	01-11-03	01-11-03
4	टीएन/55399	मे0 श्री राम वैक्यूम पावर क्लिनस	07-02-05	15-02-05
5	टीएन/49498	मे0 इनफीपोट टेक्नोलॉजिस लि0	02-05-01	02-05-01
6	पीसी/1374	मे0 इंडोलजिक प्रा0 लि0	16-09-04	16-09-04
7	टीएन/65610	मे0 बालाचन्दर इंजि0 वर्क्स	20-12-04	01-01-05
8	टीएन/57421	मे0 करपागम ऑटो एजेन्सी	01-03-05	01-03-05
9	टीएन/42479	मे0 आर 20 कोपूचिटथामपट्टी पी ए सी बैंक	01-03-01	01-03-01
10	टीएन/57419	मे0 श्री कारथीसवरी बाईन्डरस	01-03-05	01-03-05
11	टीएन/एएमबी/65609	मे0 वाई आई केमूरा एण्ड कं0 लि0	31-07-04	01-08-04
12	केएन/ 26901	मे0 तामेरकर सॉफ्टवेयर टेक्नोलॉजी	23-03-05	23-03-05
13	केएन/ 26717	मे0 बी टी आई कन्सल्टेंट इंडिया प्रा0 लि0	27-12-04	27-12-04
14	केएन/ 26820	मे0 देवगना क्रेडिट को-ओप सोसायटी लि0	16-02-05	16-02-05
15	केएन/26699	मे0 कामाक्षी क्रेडिट सोसायटी लि0	01-01-05	31-12-04
16	केएन/ 26895	मे0 स्ट्राइडस इनफोटेक (आई) प्रा0 लि0	16-03-05	16-03-05
17	केएन/ 38152	मे0 लक्ष्मी इन्टरप्राइजेस	01-09-04	01-09-04
18	एपी/51384	मे0 जी. कृष्णा रेड्डी	12-01-05	12-01-05

अतः केन्द्रीय भविष्य निधि आयुक्त उक्त अधिनियम की धारा 1 की उपधारा (4) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए उपर्युक्त स्थापनाओं पर उस या उसी प्रभावी तिथि से अधिनियम को लागू करते हैं जो उक्त स्थापनाओं के नाम के सामने दर्शायी गई है।

सूरज शर्मा  
क्षेत्रीय भविष्य निधि आयुक्त (मुख्यालय)

**अलीगढ़ मुस्लिम**  
**आय एवं व्यय**  
**(अ) अनुरक्षण**

व्यय	वास्तविक आँकड़े	
<b>1. प्रशासन :-</b>		
वेतन	181069739	
अन्य प्रभार	8331692	
सामान्य सेवा तथा विविध प्रभार	<u>20939235</u>	210340666
<b>2. शैक्षिक विभाग :-</b>		
(अ) संकाय :-		
वेतन	563129134	
अन्य प्रभार	<u>36764510</u>	599893644
(ब) महाविद्यालय :-		
वेतन	37137749	
अन्य प्रभार	<u>2062638</u>	39200387
(स) सामान्य शिक्षा केन्द्र :-		
वेतन	1766186	
अन्य प्रभार	<u>242127</u>	2008313
(द) कैरियर प्लानिंग केन्द्र :-		
वेतन	2071198	
अन्य प्रभार	<u>1068306</u>	3139504
<b>3. परीक्षाएँ :-</b>		
वेतन	13150542	
अन्य प्रभार	<u>24294713</u>	37445255
<b>4. एम0 ए0 पुस्तकालय :-</b>		
वेतन	18108999	
अन्य प्रभार	<u>16042762</u>	34151761
<b>5. छात्रों की सुविधाएँ :-</b>		
वेतन	11529591	
अन्य प्रभार	<u>1956032</u>	13485623
<b>6. अधिछात्रवृत्तियाँ :-</b>		5182012



## विश्वविद्यालय, अलीगढ़

खाता 2003 - 2004

अनुदान खाता

आय	वास्तविक आँकड़े
----	-----------------

## 1. धर्मादा एवं अनुदान :-

(अ) नियोजन से आय	18440807
------------------	----------

## (ब) अनुदान :-

विश्वविद्यालय अनुदान आयोग	1605755000
---------------------------	------------

राज्य सरकार	-	1624195807
-------------	---	------------

## 2. छात्रों से प्राप्त शुल्क :-

शैक्षिक	55503428
---------	----------

परीक्षा	2441565
---------	---------

अन्य शुल्क	857799
------------	--------

छात्रावास	<u>3852511</u>	62655303
-----------	----------------	----------

## 3. भवनों, भूमि एवं सम्पत्तियों से आय :-

भवन	2456533
-----	---------

भूमि एवं उद्यान	<u>1476388</u>	3932921
-----------------	----------------	---------

## 4. प्रकाशन :-

प्रकाशन	106581
---------	--------

## 5. अन्य विभाग :-

भवन निर्माण विभाग के टेन्डर की बिक्री द्वारा	317900
--	--------

## 6. विद्युत विभाग :-

विद्युत प्रदाय सेवाएँ	8508830
-----------------------	---------

## 7. प्रकीर्ण :-

प्रकीर्ण	10779279
----------	----------

बस किराया, वसूली, रोजगार,  
प्रार्थना पत्र शुल्क इत्यादि

व्यय	वास्तविक आँकड़े	
7. छात्रावास :-		
वेतन	104405428	
अन्य प्रभार	<u>1858106</u>	106263534
8. प्रकाशन :-		
वेतन	1409287	
अन्य प्रभार	<u>825307</u>	2234594
9. अन्य विभाग :-		
वेतन	60140316	
अन्य प्रभार	<u>29563972</u>	89704288
10. सहायक सेवाएँ :-		
वेतन	13291097	
अन्य प्रभार	<u>61840695</u>	75131792
11. प्रकीर्ण :-		
(i) अवकाश वेतन और प्रकीर्ण वेतन भुगतान		7356646
(ii) अन्य प्रभार		57842507
12. विद्यालय :-		
वेतन	63012439	
अन्य प्रभार	<u>3244135</u>	66256574
13. सेवा निवृत्त लाभ :-		283865999
14. आयुर्विज्ञान महाविद्यालय :-		
वेतन	112058087	
अन्य प्रभार	<u>13536922</u>	<u>125595009</u>
कुल व्यय		<u>1759098108</u>
महायोग		<u>1759098108</u>

आय से अधिक व्यय रु. 46452510 क्रेडिट  
ओपनिंग बेलेंस रु. 113420585 के अर्न्तगत  
किया गया। निवल अवशेष रु. 6.69 लाख पृष्ठ  
संख्या 184 पर दर्शाया गया है।

By. Finance Officer  
(Account)  
Finance & Accounts Deptt  
A. M. U., Aligarh

(यासमीन जालाल बैग)  
उप विज्ञान अधिकारी

आय	वास्तविक आँकड़े
----	-----------------

## 8. विद्यालय :-


छत्रों से प्राप्त शुल्क	525202	
छात्रावास	24479	
प्रकीर्ण	<u>1277537</u>	1827218

## 9. आर्युविज्ञान महाविद्यालय अस्पताल :-

प्रकीर्ण प्राप्तियां	321759
----------------------	--------

कुल आय  
आय से व्यय की अधिकता  
महायोग

1712645598  
46452510  
1759098108

  
Finance Officer (एस० शफीक अहमद)  
Aligarh Muslim University वित्त अधिकारी  
ALIGARH

## आय एवं व्यय

## (ब) विकास

व्यय	वास्तविक आँकड़े
------	-----------------

## उच्च शिक्षा एवं शोध विकास :-

## 1. नवम योजना :-

वेतन एवं भत्ते	1919525	
अन्य प्रभार	<u>1193680</u>	3113205

## 2. विशेष विकास योजनाएँ :-


वेतन एवं भत्ते	2563814	
छात्रवृत्ति एवं अधिछात्रवृत्तियाँ	581672	
अन्य प्रभार	<u>9590010</u>	12735496


## 3. प्रकीर्ण योजनाएँ :-

विचार गोष्ठी परिसंवाद तथा सम्मेलन	936939	
शिक्षकों को यात्रा अनुदान	332967	
अनिर्दिष्ट अनुदान	933839	
अन्य प्रभार	<u>12392569</u>	<u>14596314</u>

योग-विकास अनुदान खाता

30445015

  
**Dy. Finance Officer**  
 (Account)  
 Finance & Accounts Department  
 A. W. U., Aligarh

  
 (यासमीन जमाल बेग) उप नि. अधिकारी


## खाता 2003 - 2004


## अनुदान खाता

आय	वास्तविक आँकड़े
विश्वविद्यालय अनुदान आयोग / भारत सरकार से सहायक अनुदान	
उच्च शिक्षा तथा शोद्य विकास हेतु	
1. नवम् योजना हेतु	878000
2. दशम योजना हेतु	1057449
3. विशेष विकास योजनाएँ	11675940
4. प्रकीर्ण योजनाओं-हेतु सहायक अनुदान (वि० वि० अनुदान आयोग, भारत सरकार तथा उत्तर प्रदेश राज्य सरकार द्वारा)	<u>14908128</u>
योग :-	<u>28519517</u>
आय से व्यय की अधिकता	<u>1925498</u>

योग-विकास अनुदान खाता

30445015

  
 Finance Officer  
 Aligarh Muslim University  
 ALIGARH

  
 (एस० शफीक अहमद)  
 वित्त अधिकारी

## अलीगढ़ मुस्लिम युनिवर्सिटी, तुलन पत्र

व्यय	धनराशि	धनराशि
<b>सामान्य खाता -</b>		
स्थायी सन्दान -		
अलीगढ़ मुस्लिम विश्वविद्यालय अधिनियम 1920 की धारा 7 के अन्तर्गत लगाये धन का पूँजीकृत मूल्य		3000000
<b>स्थायी आरक्षित निधि -</b>		
हस्तांतरित अवशेषों तथा दान का पूँजीकृत मूल्य		6200956
<b>विशेष चल आरक्षित निधि -</b>		
दान आदि का पूँजीकृत मूल्य		1040221
<b>चल आरक्षित निधि -</b>		
दान आदि का पूँजीकृत मूल्य		388591
<b>न्यास निधि -</b>		
दान आदि का पूँजीकृत मूल्य	4233400	
निधि की अविनियोजित ब्याज का अवशेष	<u>2235485</u>	6468885
<b>प्रकीर्ण न्यास -</b>		
अवमूल्यन निधि का पूँजीकृत मूल्य		3541823
भवन निधि	12325534	
अभियांत्रिक महाविद्यालय निधि	943845	
महिला महाविद्यालय निधि	<u>23560</u>	13292939
<b>प्रकीर्ण आरक्षण एवं आकलन रोष -</b>		
चालू व्यय निधि -		
उन कर्मचारियों का जिन्होंने निवृत्त वेतन का विकल्प लिया है उनकी भविष्य निधि की सार पर वि० वि० अंशदान का ब्याज (भवन निर्माण ऋण तथा कर्मचारी भवनों हेतु)		63310302
छात्र सेवा निधि	1835247	
अनिवार्य सामूहिक बीमा तथा बचत योजना	57841	
इतिहास की पुस्तकों के प्रकाशन हेतु भ्रमत निधि	535696	
तहजीबुल अखलाक	374156	

31 मार्च, 2004

परिसंपत	धनराशि	धनराशि
---------	--------	--------

## विनियोजन -

## विविध नियोजन (विनियोग) -

राजकीय प्रतिभूतियाँ एवं सायधि निक्षेप		1217790793
भवन एवं भूमि		469795008
उपकरण	563083305	
वाहन	<u>4250936</u>	567334241
उपस्कर		8433624
पुस्तकें		94134626
अवमूल्यन निधि का अवशेष		572507

## प्रकीर्ण विकलन शेष -

स्थाई अग्रिम		34688
प्रकीर्ण विकलन सामान्य खाते (विवरण 4 के अनुसार)		2692271
बचत खाता/अल्प कालीन निक्षेप नियोजन का पूँजीकृत मूल्य		399524119

## विकास अनुदान खाता -

यूनानी औषधियों में अनुसंधान (तिब्बिया कालिज) हेतु (भारत सरकार) की योजना	316	
व्यय की आय से अधिकता आय एवं व्यय खाते के अनुसार	7281743	
साहित्य अनुसंधान तिब्बिया कालिज (भारत सरकार की योजना)	23602	
पोस्ट पार्टम योजना (उत्तर प्रदेश सरकार)	7291436	
हिफजाने सेहत, मुआलिजात एवं कुल्लियात (ए0 के0 तिब्बिया कालेज)	<u>2094565</u>	16691662

## अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी, तुलन पत्र

दायित्व	धनराशि	धनराशि
निलम्बित प्राप्तियाँ विवरण 4 के आलग्नक के अनुसार	8274957	
अनिवार्य जमा योजना	8164	
विकास प्रभार का पूँजीकृत मूल्य	32582950	
कारपस निधि	96040702	
सेवा निवृत्तियाँ लाभ	45155657	
विश्वविद्यालय अनुदान आयोग द्वारा अतिरिक्त श्रोतों पर इन्वेंट्री	1212895	
अन्तर्निधि अंगिम	121348470	307426735
अनुरक्षण अनुदान खाता में आय की व्यय से अधिकता		66968075
वेतन एवं भत्ते		58885463
विशेष अनुरक्षण (मरम्मत)		530221
गैर शिक्षक कर्मचारियों के वेतन का बकाया (एरियर)		1113950
दुबई केन्द्र से प्राप्त सहभागिता धनराशि		2057177
बिना किसी रुकावट के विधुत जारी		2000000

## विकास अनुदान खाता -

## विश्वविद्यालय अनुदान आयोग से प्राप्त अनुदान का पूँजीकृत मूल्य -

भवन	342819550	
पुस्तकें	91346707	
उपकरण	577665610	
उपसकर	7564487	
निलम्बित प्राप्तियाँ (विवरण नं० 4 के अनुसार)	2938968	
निलम्बित खाता	8483	
अन्तर्निधि अंगिम	13615292	
नियोजन से आय	18594689	
उच्च श्रेणीकर्ण तशरीह-वा-मुनाफूल अज्ञा विभाग (ए० के० तिब्बिया कालेज)	119	
उच्च श्रेणीकर्ण अमराज-ए-निस्वा विभाग (ए० के० तिब्बिया कालेज)	351	1054554256

## विकास अनुदान छात्रवृत्ति खाता -

भारतीय वैज्ञानिक एवं औद्योगिक अनुसंधान परिषद् द्वारा अनुदान का निक्षेप खाता	2779637	
विभिन्न संस्थानों द्वारा छात्रवृत्ति अनुदान का निक्षेप खाता	2054160	
आय की व्यय से अधिकता	2146536	6980333

## निक्षेप खाता -

## सरकार तथा अन्य एजेन्सीज द्वारा अनुदान का पूँजीकृत मूल्य -

फोर्ड फाउन्डेशन	2194321
-----------------	---------



31 मार्च, 2004

परिसंपत्त	धनराशि	धनराशि
<b>ए० एम० यू० निक्षेप खाता -</b>		
एन० आई० एच० मलेरिया योजना हवाई विश्वविद्यालय (यू० एस० ए०) के सहयोग से	24617	
प्रकीर्ण विकलन अवशेष	116835	
अनुदान पी० एल० 480 योजना	<u>8331</u>	149783
ऋण तथा अग्रिम (आलग्नक 4 के अनुसार)		36310306
<b>आयुर्विज्ञान महाविद्यालय निधि -</b>		
अन्तर निधि अग्रिम	69154	
आयुर्विज्ञान अध्ययन हेतु अग्रिम	<u>4843</u>	73997
<b>छात्रवृत्ति खाता -</b>		
छात्रवृत्ति (पिछड़ा वर्ग) छोड़कर		758852
पिछड़ा वर्ग छात्रवृत्ति (यू०पी० सरकार)		101320
<b>बीबी फातिमा वक्फ -</b>		
आय से व्यय की अधिकता		227

## अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी, तुलन पत्र

दायित्व	धनराशि	धनराशि
कुवेत सरकार	100000	
ईरान के इस्लामिक गणतंत्रा द्वारा अनुदान	113000	
महामहिम शाह सउद अनुदान	1199275	
छात्रावास के निर्माण (100 कमरों के हेतु)	1039103	
हाजी सउद अब्दुल अजीज अल बावतेन (स्कूल के निर्माण हेतु अनुदान)	1034581	
डा० हसन कमाल (यूनियन स्कूल बिल्डिंग के निर्माण हेतु)	1510093	
यू० ए० ई० का अनुदान नवीन पाठ्यक्रम हेतु	3379102	
अनुदान हाजी इब्राहीम इसमाईल	109841	
एच. ई. एम. ओवेद दान	200000	
एम.बी.बी.एस. में प्रवेश हेतु		
भारतीयों के योगदान से बची आय	12944273	
श्रीमती शक्ति रईस द्वारा अनुदान	50000	
दन्त कालेज	30583876	
महामहिम सैयदना बुरहानउद्दीन अनुदान		
एस टी हाई स्कूल	785422	

## विश्वविद्यालय के विकास कार्यों हेतु पूँजी -

दवाखाना द्वारा तिब्बिया कॉलेज का अनुदान	3335067
डा० एस० फारुख अनुदान (जकात निधि)	264856
सुहैल अहमद अनुदान	2296
अनुदान ओल्ड बोएज एसो० कामपुर	53020
दवाखाना तिब्बिया कालिज एवं एस० एस० मार्ट से अनुदान	593267
डा० शंकर दयाल शर्मा का अनुदान स्पर्ध पदक हेतु	15000
श्रीमती उषा के० बयेजा अनुदान	16500
श्री खुर्शीद आलम खाँ द्वारा अनुदान	8000
श्री सैद उल्लाह खाँ दंत महाविद्यालय हेतु	137165
श्री एस० आर० अली जैदी अनुदान	286331
यूनिवर्सिटी गेस्ट हाउस	1066268
प्रो० पी० एन० कोला	154289
श्री इशरत हुसैन उस्मानी छात्रावृत्ति हेतु	26140
स्वर्गीय श्री मौहम्मद अमजद अली (पुस्तक हेतु)	625707
श्री सबीह अहमद कमाली	180503
जम्मू कश्मीर ग्रासन द्वारा अनुदान	696820
श्रीमती अफसरी बेगम द्वारा अनुदान	1579534
बुक बैंक अभियांत्रिक महाविद्यालय	2800568

## प्रकीर्ण अनुदान एवं निक्षेप खाता -

(1) स्टडीज आन माइनर फारेस्ट आयल अन्डर डा०एस०एम० उसमान(रसायन विज्ञान विभाग)	22954
(2) परियोजना नं० 644 बायोटेक्नोलोजी डा० सलाहउदीन सिद्दीकी के आधीन	1276

31 मार्च, 2004

परिसंपत्त	धनराशि	धनराशि
<b>अन्तिम अवशेष -</b>		
अनुरक्षण अनुदान खाता		20688701
<b>भारतीय स्टेट बैंक का संदान अर्थशास्त्रा में चेयर की स्थापना हेतु -</b>		
स्टेट बैंक आफ इण्डिया ए० एम० यू० शाखा		2956
<b>ए० एम० यू० निक्षेप खाता -</b>		
स्टेट बैंक आफ इण्डिया ए० एम० यू० शाखा		24961705
सिंडीकेट बैंक		5449
<b>ए० एम० यू० भविष्य निधि खाता -</b>		
स्टेट बैंक आफ इण्डिया, ए० एम० यू० (बचत खाता एवं चालू खाता)	3603011	
इलाहाबाद बैंक ए० एम० यू० (अलीगढ़)	23665	
डाकघर बचत बैंक खाता	2258	3628934
<b>आयुर्विज्ञान महाविद्यालय निधि -</b>		
स्टेट बैंक आफ इण्डिया, ए० एम० यू० शाखा (अलीगढ़)		197497
<b>डा० वली मौहम्मद वक्फ अलल-औलाद निधि -</b>		
स्टेट बैंक आफ इण्डिया, ए० एम० यू० शाखा (अलीगढ़)		71032

## अलीगढ़ मुस्लिम युनिवर्सिटी, तुलन पत्र

व्ययित्व	धनराशि	धनराशि
(3) जमान्तों का निक्षेप	10526908	
(4) प्रकीर्ण आकलन अवशेष (विवरण 4 के संलग्नक के अनुसार)	28306382	
(5) उपकुलपति निधि	34721467	
(6) छात्र निधि, सिटी हाई स्कूल	5018510	
(7) छात्रा निधि, ए0एम0यू0 गर्ल्स हाई स्कूल	7707083	
(7अ) छात्रा निधि, सिटी गर्ल्स हाई स्कूल	3516618	
(8) विकास अधिभार		
स्पेशल वार्ड जे0 एन0 एम0 सी0 अस्पताल	17053664	
रेडियो डाइगोनोसिस भ्रमत निधि	26797046	
दुबई स्थापित जुमा-अल-माजिद द्वारा अनुदान	107954	
किरिक आर स्मिथ बेकैस्ट डा0 अलफराड सी		
ग्रेफिल द्वारा अनुदान	259187	
ए0एम0यू0 अनुमती दुबई द्वारा अनुदान		
गर्ल्स होस्टल के निर्माण के हेतु	2400000	
अब्दुल वासे द्वारा अनुदान प्रो0 नजीर अहमद हेतु	50000	
कलीम ख्वाजा उपाध्यक्ष संगठन भारतीय		
मुस्लिम अमेरिका द्वारा अनुदान	60000	
मौलाना आजाद लाइब्रेरी को पुस्तकें	1012984	204646251
उपहार में मिली		

## भविष्य निधि खाता -

भविष्य निधि	974360483	
वापसी हेतु प्राप्तियाँ	1568401	
अन्तर्निधि अग्रिम	1943279	977872163

## आयुर्विज्ञान महाविद्यालय निधि -

दानों का पूँजीकृत मूल्य	6184324
-------------------------	---------

## डा0 वली मोहम्मद वक्फ निधि -

दानों का पूँजीकृत मूल्य	748982	
आय की व्यय से अधिकता	55881	804863

## स्वर्ण जयन्ती -

दानों का पूँजीकृत मूल्य	244674
-------------------------	--------

## शेख जैद पेट्रोलियम इन्स्टीट्यूट -

शेख जैद के दान का पूँजीकृत मूल्य	5275376	
आय की व्यय से अधिकता	651833	5927209

31 मार्च, 2004

परिसंपत्त	धनराशि	धनराशि
<b>स्वर्ण जयन्ती निधि -</b>		
स्टेट बैंक आफ इण्डिया, ए० एम० यू० शाखा (अलीगढ़)		26077
<b>परमानेन्ट इस्लामिक सोलिडेरिटी निधि -</b>		
सिंडीकेट बैंक, ए० एम० यू० शाखा (अलीगढ़)		130601
<b>बीबी फातिमा वक्फ -</b>		
स्टेट बैंक आफ इण्डिया, ए० एम० यू० शाखा (अलीगढ़)		73696
<b>छात्रवृत्ति खाता -</b>		
इलाहाबाद बैंक, ए० एम० यू० शाखा (अलीगढ़)		1414290
छात्रवृत्ति खाता (पिछड़ा वर्ग) (यू०पी० सरकार)		143542
<b>ए० एम० यू० विकास अनुदान छात्रवृत्ति खाता -</b>		
स्टेट बैंक आफ इण्डिया ( ए० एम० यू० शाखा, अलीगढ़ )		6980333

## अलीगढ़ मुस्लिम युनिवर्सिटी, तुलन पत्र

वयित्व	धनराशि	धनराशि
<b>परमानेन्ट इस्लामिक सोलिडैरिटी निधि -</b>		
दानों का पूँजीकृत मूल्य	1012653	
आय की व्यय से अधिकता	178167	1190820
<b>बीबी फातिमा ववफ -</b>		
दानों का पूँजीकृत मूल्य		126012
<b>भारतीय स्टेट बैंक का संदान -</b>		
अर्थशास्त्र में चेयर की स्थापना हेतु दान का पूँजीकृत मूल्य		2956
<b>भ्रमत निधि गृह निर्माण अग्रिम हेतु -</b>		
विश्वविद्यालय अनुदान आयोग से प्राप्त तथा निक्षेप खाता से हस्तान्तरित धनराशि का पूँजीकृत मूल्य	21406002	
आय की व्यय से अधिकता	23227247	44633249
<b>छात्रवृत्ति खाता -</b>		
छात्रवृत्तियों का पूँजीकृत मूल्य		2173142
<b>ए0 एम0 यू0 विकास कारपस खाता -</b>		
दानों का पूँजीकृत मूल्य	3026410	
आय की व्यय से अधिकता	18689	3045099
<b>छात्रवृत्ति खाता (बैकवर्ड छात्र)</b>		
<b>उ0 प्र0 सरकार -</b>		
दानों का पूँजीकृत मूल्य		244862
<b>ए0 एम0 यू0 स्टूडेंट वेलफेयर फण्ड -</b>		
दानों का पूँजीकृत मूल्य	15197464	
आय की व्यय से अधिकता	2913185	18110649
<b>अन्तिम रोकड अवशेष -</b>		
शेअर जेद इन्स्टीट्यूट आफ पेट्रोलियम तथा टेक्नोलॉजी		38696
एम0यू0 विकास अनुदान खाता		13777539
महायोग		2876782435

By. Finance Officer  
(Account)


(यासनी जलाल बैग)  
उप निर अधिकारी

31 मार्च, 2004

परिसंपत्त	धनराशि	धनराशि
<b>ए० एम० यू० स्टूडेंट वैलफेयर निधि -</b>		
स्टेट बैंक आफ इण्डिया, ए० एम० यू० शाखा (अलीगढ़)		3827373
<b>ए० एम० यू० विकास कारपस निधि -</b>		
स्टेट बैंक आफ इण्डिया, ए० एम० यू० शाखा (अलीगढ़)		102074
<b>भ्रमत निधि गृह निर्माण अग्रिम कर्मचारियों के वास्ते -</b>		
स्टेट बैंक आफ इण्डिया, ए० एम० यू० शाखा (अलीगढ़)		130151

महायोग

2876782435

  
 Finance Officer (एस० शफीक अहमद)  
 Aligarh Muslim University वित्त अधिकारी  
 ALIGARH

## लेखा परीक्षा प्रमाण पत्र

मैंने अलीगढ़ मुस्लिम विश्वविद्यालय, अलीगढ़ के 31 मार्च 2004 को समाप्त हुये वर्ष के आय एवं व्यय लेखा तथा 31 मार्च 2004 के तुलन पत्र की जाँच कर ली है। मैंने सभी अपेक्षित सूचनायें एवं स्पष्टीकरण और संलग्न लेखा परीक्षा प्रतिवेदन में दी गई अभ्युक्तियों के अधीन जिसमें मुख्यतः निम्नलिखित अभ्युक्तियाँ निहित हैं:--

1. स्थायी परिसम्पत्तियों को रु. 2.82 करोड़ से कम दिखाया जाना [प्रस्तर 2.1(घ)]
2. अनावर्तित अनुदानों के डेबिट एवं क्रेडिट अवशेषों का नियमितीकरण नहीं था (प्रस्तर 2.4)
3. प्राप्त एवं भुगतान लेखा को निर्धारित प्रपत्र नहीं बनाया गया (प्रस्तर 3.2)

अपनी लेखा परीक्षा के परिणामस्वरूप मैं प्रमाणित करता हूँ कि मेरी राय में और मेरी सर्वोत्तम सूचना और मुझे दिये गये स्पष्टीकरणों और संस्थान की बहियों में किये गये उल्लेख के अनुसार यह लेखे और तुलन पत्र उपयुक्त रूप से तैयार किये गये हैं और अलीगढ़ मुस्लिम विश्वविद्यालय, अलीगढ़ के कार्यकलाप का सही और उचित रूप प्रस्तुत करते हैं।

ह/-

अपठनीय

प्रधान महालेखाकार (सिविल आडिट)

उत्तर प्रदेश

स्थान - इलाहाबाद

दिनांक - 05.03.2005



## EMPLOYEES' STATE INSURANCE CORPORATION

New Delhi-110002, the 29th June 2005

No. V-33(13)8/2000-E.IV—In pursuance of Section-25 of the ESI Act, 1948, read with Regulation-10 of ESI (General) Regulations, 1950 the Chairman, ESI Corporation has nominated Shri Paul and Shri Farooq Ahmed as employers' representatives on the Regional Board, ESI Corporation, Karnataka in place of Shri M. P. Shyam and Shri Aiyappa.

Accordingly, in the Corporation's Notification No. V-33(13)8/2000-E.IV dated 13-2-2003, against entries at Sl. No. 6 and 7, the following entries shall be substituted :—


Sl. No.	Existing Entry	Proposed Entry
1.	Shri M. P. Shyam, Managing Director, Mysore Feeds Ltd., Nayandahalli, Mysore Road, Bangalore.	Shri Paul, Manager, HRD, M/s. Lakshmi Exports Huose, P. B. No. 3449, Bellandur Gate, Sarjapur Main Road, Bangalore.
2.	Shri Aiyappa, President, Employers' Association C/o International Institute, 104, Hosur Road, Bangalore.	Shri Farooq Ahmed, Manager, HRD, Taj Residency, No. 41/3, M. G. Road, Bangalore.

Dr. AJAY DUA  
Director General

**No. V-33(13)9/2002-E.IV:** In pursuance of Section -25 of the Employees' State Insurance Act, 1948 (34 of 1948) read with Regulation-10 of the ESI (General) Regulation, 1950. The Chairman, ESI Corporation hereby constitutes the Regional Board for Madhya Pradesh Region which shall consist of the following members namely:-

<b>S. No.</b>	<b>Name of Representative</b>	<b>Designation</b>	<b>Under Regulation</b>
1.	Hon'ble Labour Minister Govt. of Madhya Pradesh.	Chairman	10(1)(a)
2.	Hon'ble Minister Health & Family Welfare Govt. of Madhya Pradesh	Vice -Chairman	10(1)(b)
3.	Labour Commissioner Govt. of Madhya Pradesh	Member	10(1)(c)
4.	Director, ESI Scheme Indore	Member	10(1)(d)(i)
5.	State Medical Commissioner ESI Corporation Panchdeep Bhawan, Indore	Member	10(1)(d)(ii)
6.	Shri K.K.L. Das, Sr. Vice President, Grasim Staple Fibre, Birla Gram, Nagda, Distt.-Ujjain.	Employers' Representative	10(1)(e)
7.	Sh. Manoj Mishra, Factory Manager, Hot Line, (Colour Picture Tube) Malenpur Distt.-Bhind	Employers Additional Representative	Proviso to Regulation 10(1)
8.	Shri Rakesh Sharma, Sr. Vice President, Meher Cement, Sarla Nagar, Meher, Distt. Satna.	Employers' Additional Representative	Proviso to Regulation 10(1)

- |     |   |  |                                    |
|-----|---|--|------------------------------------|
| 9.  | Sh. Rajeshwar Tripathi,<br>Dy.General Manager,(H.R)<br>Isher Motor Ltd.Industrial Area, S.No.1<br>Pithampur<br>Distt.-Dhar. | Employers'<br>Additional<br>Representative | Proviso to<br>Regulation<br>10(1). |
| 10. | Shri Mangi Lal Porwal,<br>44/26 South T.T. Nagar,<br>Bhopal.  | Employees'<br>Representative               | Regulation<br>10(1)(e).            |
| 11. | Shri R.D. Tripathi,<br>M.I.G.- 57<br>3-A,Saket Nagar,<br>Bhopal.  | Employees'<br>Additional<br>Representative | Proviso to<br>Regulation<br>10(1). |
| 12. | Shri Bhagwan Das Gondane,<br>B.M.S.<br>37,Bakshi Gali, Near Rajwada,<br>Indore.   | Employees'<br>Additional<br>Representative | Proviso to<br>Regulation<br>10(1). |
| 13. | Shri Pramod Pradhan,<br>President, CITU,<br>B.T. Ranadive Bhavan,<br>13-B Padamnabh Nagar<br>New Subhash Nagar,<br>Bhopal.  | Employees'<br>Additional<br>Representative | Proviso to<br>Regulation<br>10(1). |
| 14. | Principal Secretary<br>Labour Department,<br>Madhya Pradesh.  | Member of ESIC<br>residing in the<br>State | 10(1)(f)                           |
| 15. | Regional Director<br>ESI Corporation<br>Indore  | Member<br>Secretary                        | 10(3)                              |

  
(DR. AJAY DUA)  
DIRECTOR GENERAL

**EMPLOYEES' PROVIDENT FUND ORGANISATION (HEAD OFFICE)**

No. C.P.F.C./Co-ord./12/1/Notification/2005/SZ—

S.O. \_\_\_\_\_ whereas it appears to the Central Provident Fund Commissioner that the employer and the majority of the employees in relation to the following establishments have agreed that the provisions of the Employees' Provident Funds & Miscellaneous Provisions Act, 1952 (19 of 1952), should be made applicable to their respective establishments namely:

S. No.	Code No.	Name of estt.	Date of Coverage	Date of Consent
1	AP/38442	M/s. Shree Dharmalingeshwara L.S.C.S.	02-11-01	02-11-01
2	AP/22806	M/s. The Venkatraya Printers (P) Ltd.	01-04-93	18-03-93
3	TN/MD/57173	M/s. Orgoon Bioprocess (P) Ltd.	01-11-04	01-11-04
4	TN/MD/57180	M/s. R. Nirmal Kumar Contractor	01-11-04	01-11-04
5	TN/44209	M/s. R.N. Matriculation School	01-01-04	29-01-04
6	TN/MD/42945	M/s. Sp. Spl. 133 Kurunthamadam PACB	01-09-03	01-09-03
7	TN/MD/57163	M/s. Sri Govindhan Fine Polymers	01-10-04	17-11-04
8	TN/57176	M/s. Sri Nellavannan Agencies	01-11-04	01-11-04
9	TN/MD/57356	M/s. Kamaraj Community Health Centre	01-01-05	01-01-05
10	TN/MD/57363	M/s. Laxmi Polyprints	01-01-05	01-01-05
11	TN/MD/42936	M/s. Q652, Kogankulam Primary Agricultural Co-op. Barik	01-08-03	01-08-03
12	AP/44396	M/s. Sai Caterers, Hyderabad	01-04-04	01-04-04
13	AP/47821	M/s. Sree Hardware Point	16-12-04	16-12-04

Now therefore, in exercise of the powers conferred by sub-section (4) of Section 1 of the said Act, Central Provident Fund Commissioner hereby apply the provisions of the said Act to the above mentioned establishments from and with effect from the date mentioned against the name of each of the said establishments.


  
(Suraj Sharma)  
Regional P. F. Commissioner-II

No. C.P.F.C./Co-ord./12/1/Notification/2005/SZ—

S.O. \_\_\_\_\_ whereas it appears to the Central Provident Fund Commissioner that the employer and the majority of the employees in relation to the following establishments have agreed that the provisions of the Employees' Provident Funds & Miscellaneous Provisions Act, 1952 (19 of 1952), should be made applicable to their respective establishments namely:

S. No.	Code No.	Name of estt.	Date of Coverage	Date of Consent
1	KR/21041	M/s. Bhavana Tiles Trichur Dist	01-12-04	01-12-04
2	KR/16966	M/s. AKM Motor Service	01-09-04	01-09-04
3	KR/KNR/18288	M/s. Pothan & Pothan Automobil (P) Ltd.	01-01-05	01-01-05
4	KR/KNR/18297	M/s. National College	01-02-05	01-02-05
5	KR/16976	M/s. Aradhana Eye Hospital	01-10-04	01-10-04
6	KR/17896	M/s. Thoufeeq Transport Co.	12-04-04	12-04-04
7	KR/KNR/18277	M/s. Fathima Hospital Kannur	01-12-04	01-12-04
8	KR/KC/21053	M/s. A.I. Tech Industries, Kochi	01-08-04	01-08-04
9	KR/17944	M/s. St. Joseph Nursery School	01-11-04	01-11-04
10	KR/19806	M/s. Keltron Tool Research & Training Centre	01-09-03	01-09-03
11	KR/19946	M/s. Hindustan Searing Works	29-06-04	29-06-04
12	KR/KC/21010	M/s. Delta Foundations, Kochi	01-11-04	01-11-04

Now therefore, in exercise of the powers conferred by sub-section (4) of Section 1 of the said Act, Central Provident Fund Commissioner hereby apply the provisions of the said Act to the above mentioned establishments from and with effect from the date mentioned against the name of each of the said establishments

  
(Suraj Sharma)  
Regional P.F. Commissioner-II

No. C.P.F.C./Co-ord./12/1/Notification/2005/SZ—

New Delhi-66, the 08th August 2005

S. O. \_\_\_\_\_ whereas it appears to the Central Provident Fund Commissioner that the employer and the majority of the employees in relation to the following establishments have agreed that the provisions of the Employees' Provident Funds & Miscellaneous Provisions Act, 1952 (19 of 1952), should be made applicable to their respective establishments namely:

S. No.	Code No.	Name of estt.	Date of Coverage	Date of Consent
1	KR/11954	M/s. Valiyannur Service Co-op. Bank Ltd.	10-08-92	10-08-92
2	KR/KC/21006	M/s. Prime Electrical Service	01-09-04	01-09-04
3	KR/KC/21172	M/s. Mega Motor Service	01-12-04	12-10-04
4	KR/21115	M/s. Sree Ekadhatha Agencies Pvt. Ltd.	01-02-05	01-02-05
5	KR/22031	M/s. Consumer Protection & Guidance Society	01-01-05	29-12-04
6	KR/23008	M/s. Sorah Ice & Cold Storage	01-05-05	01-05-05
7	KR/23009	M/s. Kallulvila Ice & Cold Storage	01-05-05	01-05-05
8	KR/KC/21109	M/s. Vinker Techno Mktg. Company	01-01-05	31-12-04
9	KR/KC/21050	M/s. Relogistics (Kochi) Pvt. Ltd.	01-11-04	11-10-04

Now therefore, in exercise of the powers conferred by sub-section (4) of Section 1 of the said Act, Central Provident Fund Commissioner hereby apply the provisions of the said Act to the above mentioned establishments from and with effect from the date mentioned against the name of each of the said establishments.

  
(Suraj Sharma)  
Regional P. F. Commissioner-II

New Delhi-66, the 21st June 2005

No. C.P.F.C./Co-ord./12/1/Notification/2005/SZ—

S.O. \_\_\_\_\_ whereas it appears to the Central Provident Fund Commissioner that the employer and the majority of the employees in relation to the following establishments have agreed that the provisions of the Employees' Provident Funds & Miscellaneous Provisions Act, 1952 (19 of 1952), should be made applicable to their respective establishments namely:

S. No.	Code No.	Name of estt.	Date of Coverage	Date of Consent
1	KR/KC/21082	M/s. New Udeya Pharmacy & Ayurvedic Laboratories	01-11-04	01-11-04
2	KR/KC/19882	M/s. K&B H R Solutions (P) Ltd.	01-10-03	01-10-03
3	KR/KC/21072	M/s. ANU Enterprises	01-12-04	30-11-04
4	KR/KNR/18292	M/s. Mary Matha Arts & Science College	01-02-05	07-02-05
5	KR/KNR/18289	M/s. Devamatha Arts & Science College	01-02-05	30-01-05
6	KR/21046	M/s. Bison Rubbers	01-12-04	01-12-04
7	KR/22060	M/s. Link Air Travels & Tours (I) Pvt. Ltd.	01-02-05	01-02-05
8	KR/21068	M/s. Rajdoot Super Service	01-01-05	03-12-04
9	KR/21147	M/s. Chaithanya Paints Pvt. Ltd.	01-01-05	01-01-05
10	KR/19563	M/s. Visalakshy Ceramics	01-01-02	11-01-02
11	KR/16066	M/s. Quilon Consulting Engineers	30-03-97	01-04-97
12	KR/16944	M/s. Alamy Images (I) Pvt. Ltd.	01-06-04	01-06-04
13	KR/KNR/18265	M/s. Drishya Travels	01-09-04	01-09-04
14	KR/19287	M/s. Bertech Rubbers	01-05-00	01-05-00
15	KR/19393	M/s. Bertech Flaps	01-09-00	01-09-00
16	KR/19829	M/s. Santosh Ceramics	01-12-03	01-12-03
17	KR/19881	M/s. M.S.L.P. School	01-03-04	01-03-04
18	KR/KC/19952	M/s. Supreme Electrical Engg. Pvt. Ltd.	01-08-04	01-08-04
19	KR/19970	M/s. Gurudeva Clay Products	01-08-04	01-08-04

Now therefore, in exercise of the powers conferred by sub-section (4) of Section 1 of the said Act, Central Provident Fund Commissioner hereby apply the provisions of the said Act to the above mentioned establishments from and with effect from the date mentioned against the name of each of the said establishments.


  
(Suraj Sharma)  
Regional P. F. Commissioner-II

No. C.P.F.C./Co-ord./12/1/Notification/2005/SZ—

S.O. \_\_\_\_\_ whereas it appears to the Central Provident Fund Commissioner that the employer and the majority of the employees in relation to the following establishments have agreed that the provisions of the Employees' Provident Funds & Miscellaneous Provisions Act, 1952 (19 of 1952), should be made applicable to their respective establishments namely:

S. No.	Code No.	Name of estt.	Date of Coverage	Date of Consent
1	TN/65125	M/s. Raasi & Company	01-04-01	01-04-01
2	PC/881	M/s. Karaikal Fishermen Co-op. Marketing Union Ltd.	07-12-98	07-12-98
3	PC/1308	M/s. Annai Industries	01-11-03	01-11-03
4	TN/55399	M/s. Sri Ram Vacuum Power Cleans	07-02-05	15-02-05
5	TN/49498	M/s. Infiport Technologies Ltd.	02-05-01	02-05-01
6	PC/1374	M/s. Indologic (P) Ltd.	16-09-04	16-09-04
7	TN/65610	M/s. Balachandar Engg. Works	20-12-04	01-01-05
8	TN/57421	M/s. Karpagam Auto Agency	01-03-05	01-03-05
9	TN/42479	M/s. R.20 Koppuchitthampatti PAC Bank	01-03-01	01-03-01
10	TN/57419	M/s. Sree Kartheeswari Binders	01-03-05	01-03-05
11	TN/AMB/65609	M/s. Y. I. Kemura & Company Ltd.	31-07-04	01-08-04
12	KN/26901	M/s. Tamcracker Software Technology	23-03-05	23-03-05
13	KN/26717	M/s. BTI Consultant India (P) Ltd.	27-12-04	27-12-04
14	KN/26820	M/s. Daivagna Credit Co-op. Society Ltd.	16-02-05	16-02-05
15	KN/26699	M/s. Kamakshi Credit Society Ltd.	01-01-05	31-12-04
16	KN/26895	M/s. Strides Infotech (I) Pvt. Ltd.	16-03-05	16-03-05
17	KN/38152	M/s. Laxmi Enterprises	01-09-04	01-09-04
18	AP/51384	M/s. G. Krishna Reddy	12-01-05	12-01-05

Now therefore, in exercise of the powers conferred by sub-section (4) of Section 1 of the said Act, Central Provident Fund Commissioner hereby apply the provisions of the said Act to the above mentioned establishments from and with effect from the date mentioned against the name of each of the said establishments.

  
 (Suraj Sharma)  
 Regional P. F. Commissioner-II



# ALIGARH MUSLIM UNIVERSITY, ALIGARH

## INCOME AND EXPENDITURE ACCOUNT FOR THE YEAR 2003-2004

### (A) MAINTENANCE GRANT ACCOUNT

<u>INCOME AND EXPENDITURE ACCOUNT FOR THE YEAR 2003-2004</u>		<u>(A) MAINTENANCE GRANT ACCOUNT</u>	
EXPENDITURE	ACTUALS FOR 2003 - 2004 Rs.	INCOME	ACTUALS FOR 2003 - 2004 Rs.
<u>1. ADMINISTRATION</u>		<u>1. ENDOWMENTS AND GRANTS</u>	
SALARIES	181069739	INCOME FROM INVESTMENTS	18440807
OTHER CHARGES	8331692	<u>GRANTS</u>	
COMMON SERVICES & GENERAL CHARGES	20939235	UNIVERSITY GRANTS	
	210340666	COMMISSION	1605755000
<u>2. ACADEMIC DEPARTMENTS</u>			1624195807
(a) <u>FACULTIES</u>		<u>2. FEE FROM STUDENTS</u>	
SALARIES	563129134	ACADEMIC	55503428
OTHER CHARGES	36764510	EXAMINATIONS	2441565
(b) <u>COLLEGES</u>		OTHER FEES	857799
SALARIES	37137749	HOSTELS	3852511
OTHER CHARGES	2062638		62655303
	39200387		

1	2	3	4	5	6
<b>(c) GENERAL EDUCATION CENTRE SALARIES</b> 1766186					
OTHER CHARGES	242127	2008313			
<b>(d) CAREER PLANNING CENTRE &amp; PROF. COURSES SALARIES</b> 2071198					
OTHER CHARGES	1068306	3139504		2456533	
3. <b>EXAMINATIONS SALARIES</b>	13150542				3932921
OTHER CHARGES	24294713	37445255		1476388	
4. <b>M. A. LIBRARY SALARIES</b>	18108999				106581
OTHER CHARGES	16042762	34151761			
5. <b>STUDENTS FACILITIES SALARIES</b>	11529591				317900
OTHER CHARGES	1956032	13485623			
6. <b>FELLOWSHIPS &amp; SCHOLARSHIPS</b>		5182012			8508830
7. <b>HOSTELS SALARIES</b>	104405428				
OTHER CHARGES	1858106	106263534			
<b>3. INCOME FROM BUILDINGS</b>					
<b>LAND &amp; OTHER PROPERTIES</b>					
BUILDINGS LICENCE FEE					
LANDS AND GARDENS					
SALE OF WOOD & CROPS					
4. <b>PUBLICATIONS</b>					
PUBLICATIONS					
5. <b>OTHER DEPARTMENTS</b>					
BUILDING DEPARTMENT					
SALE OF TENDER FORMS					
6. <b>ELECTRICITY DEPARTMENT</b>					
ELECTRICITY CHARGES					

1	2	3	4	5	6
8. PUBLICATIONS			7. MISCELLANEOUS		
SALARIES	1409287		MISCELLANEOUS		10779279
OTHER CHARGES	825307	2234594	BUS CHARGES, RECOVERIES		
9. OTHER DEPARTMENTS			EMPLOYMENT APPL. FEE, ETC.		
SALARIES	60140316		8. SCHOOLS		
OTHER CHARGES	29563972	89704288	FEE FROM STUDENTS	525202	
10. AUXILIARY SERVICES			HOSTELS	24479	
SALARIES	13291097		MISCELLANEOUS	1277537	1827218
OTHER CHARGES	61840695	75131792			
11. MISCELLANEOUS			9. MEDICAL COLLEGE HOSPITAL		
LEAVE SALARY AND MISC.			MISCELLANEOUS RECEIPTS		321759
SALARY PAYMENTS		7356646			
OTHER CHARGES		57842507			
CONFERENCES, SEMINARS,					
REPLACEMENT OF EQUIPMENTS,					
FURNITURE, IMPROVEMENT OF LAB					
FACILITIES, SPECIAL REPAIRS,					
MEMBERSHIPS/CONTRIBUTION ETC.					

1	2	3	4	5	6
12. SCHOOLS					
SALARIES	63012439				
OTHER CHARGES	3244135	66256574			
13. RETIREMENT BENEFITS		283865999			
14. MEDICAL COLLEGE HOSPITAL					
SALARIES	112058087				
OTHER CHARGES	13536922	125595009			
GRAND TOTAL :		1759098108			
<p>Dr. Finance Officer (Accounts) Finance &amp; Accounts Deptt., A M U., Aligarh</p>			<p>Finance Officer Aligarh Muslim University ALIGARH</p>		
<p>Excess expenditure of Rs. 4,64,52,510 met against the credit opening balance of Rs.11,34,20,585. Net credit is Rs. 6 69 lakhs as exhibited on page no. 184.</p>			<p>Finance Officer Aligarh Muslim University ALIGARH</p>		
<p>TOTAL INCOME :</p>			<p>1712645598</p>		
<p>EXCESS OF EXPENDITURE OVER RECEIPT</p>			<p>46452510</p>		
<p>GRAND TOTAL :</p>			<p>1759098108</p>		

INCOME AND EXPENDITURE ACCOUNT FOR THE YEAR 2003-2004 (B) DEVELOPMENT GRANT ACCOUNT		
EXPENDITURE	AMOUNT Rs.	INCOME AMOUNT Rs.
DEVELOPMENT OF HIGHER EDUCATION & RESEARCH.		GRANT IN AID FROM UNIVERSITY GRANTS COMMISSION/GOVERNMENT OF INDIA FOR DEVELOPMENT OF HIGHER EDUCATION & RESEARCH.
<u>X PLAN SCHEMES</u>		IX PLAN SCHEMES
SALARIES & ALLOWANCES	1919525	X PLAN SCHEMES
OTHER CHARGES	1193680	SPECIAL DEVELOPMENT SCHEMES
<u>SPECIAL DEVELOPMENT SCHEMES</u>	3113205	
SALARIES & ALLOWANCES	2563814	GRANT IN AID FOR MISCELLANEOUS SCHEMES FROM UNIVERSITY GRANTS COMMISSION/GOVERNMENT OF INDIA AND UTTAR PRADESH GOVERNMENT
SCHOLARSHIP & FELLOWSHIP	581672	
OTHER CHARGES	9590010	
	12735496	14908128

EXPENDITURE	AMOUNT Rs.	INCOME	AMOUNT Rs.
<b>MISCELLANEOUS SCHEMES</b>			
SEMINAR / SYMPOSIUM / WORKSHOP / CONFERANCES.	936939	TOTAL :	28519517
TRAVEL	332967		
UNASSIGNED GRANT	933839		
OTHER CHARGES	12392569	EXCESS OF EXPENDITURE OVER RECEIPT	1925498
GRAND TOTAL :	30445015	GRAND TOTAL :	30445015
<p><i>(Signature)</i> Finance Officer Finance &amp; Accounts Deptt A. M. U., Aligarh</p>		<p><i>(Signature)</i> Finance Officer (S. Shafiq Ahmad) Aligarh Muslim University Finance Officer ALIGARH</p>	

<u>ALIGARH MUSLIM UNIVERSITY, BALANCE SHEET AS ON 31ST MARCH, 2004</u>			
LIABILITIES	AMOUNT Rs.	ASSETS	AMOUNT Rs.
<u>GENERAL FUND ACCOUNT</u>		<u>INVESTMENTS</u> (VARIOUS ACCOUNTS)	
<u>PERMANENT ENDOWMENTS</u>		<u>GOVERNMENT SECURITIES</u>	
CAPITALISED VALUE OF THE DONATION RECEIVED AND INVESTMENTS MADE UNDER SECTION 7 OF THE A.M.U. ACT. OF 1920 AS AMENDED	3000000	FIXED DEPOSITS	1217790793
		BUILDINGS AND LANDS	469795008
<u>PERMANENT RESERVE FUND</u>		EQUIPMENT	563083305
CAPITALISED VALUE OF THE DONATIONS RECEIVED	6200956	VEHICLE	4250936
		FURNITURE	8433624
<u>SPECIAL FLOATING RESERVE FUND</u>		BOOKS	94134626
CAPITALISED VALUE OF THE DONATIONS AND GRANTS	1040221	BALANCE OF DEPRECIATION FUND	572507
<u>FLOATING RESERVE FUND</u>		<u>MISCELLANEOUS DEBIT BALANCE</u>	
CAPITALISED VALUE OF THE DONATIONS ETC.	388591	PERMANENT ADVANCES	34688

1	2	3	4	5	6
<b>TRUST FUND</b>					
CAPITALISED VALUE OF THE DONATIONS ETC.	4233400		MISCELLANEOUS-DEBHT BALANCES AS PER ANNEXURE NO. 4		2692271
UN-UTILISED INTEREST OF THE FUND	2235485	6468885	SAVING BANK ACCOUNT (CAPITALISED VALUE OF SHORT TERM DEPOSIT)		399524119
MISCELLANEOUS FUNDS			<u>DEVELOPMENT GRANTS ACCOUNTS</u>		
CAPITALISED VALUE OF DEPRECIATION FUND		3541823	GOVERNMENT OF INDIA'S SCHEME IN UNANI MEICINE AT A.K. TIBBIYA COLLEGE	316	
BUILDING FUND	12325534		EXCESS OF EXPENDITURE OVER RECEIPTS AS PER INCOME & EXP. ACCOUNT	7281743	
ENGINEERING COLLEGE FUND	943845		GOVT. OF INDIA'S SCHEME OF LITERARY RESEARCH UNIT AT A.K. TIBBIYA COLLEGE	23602	
WOMEN'S COLLEGE FUND	23560	13292939	U. P. GOVT. POST PARTUM PROGRAMME	7291436	
<u>MISCELLANEOUS CREDITS BALANCES</u>			HIFZAN-E-SEHAT / MOALIJAT & KULLIYAT, A.K. TIBBIYA COLLEGE	2094565	16691662
<u>CURRENT EXPENSES FUND</u>					
INTEREST ON UNIVERSITY CONTRIBUTION TOWARDS PROVIDENT FUND EARMARKED FOR CONSTRUCTION OF STAFF QUARTERS		63310302			
STUDENTS AID FUND	1835247				



1	2	3	4	5	6
			<b><u>DEPOSIT ACCOUNT</u></b>		
COMPULSORY GROUP INSURANCE SCHEME/DEPOSIT LINKED SCHEME	57841		N. I. H. MALARIA SCHEME IN COLLABORATION WITH UNIVERSITY OF HAWAII U. S. A.	24617	
REVOLVING FUND FOR PUBLICATION OF BOOKS IN HISTORY DEPARTMENTS	535696		MISCELLANEOUS DEBIT BALANCE	116835	
COMPULSORY DEPOSIT SCHEME	8164		GRANT UNDER PL-480 SCHEME	8331	149783
CAPITALISED VALUE OF DEVELOPMENT CHARGES	32582950		LOANS AND ADVANCES AS PER STATEMENT NO. 4		36310306
CORPUS FUND	96040702		<b><u>MEDICAL COLLEGE FUND</u></b>		
RETIREMENT BENEFITS	45155657		INTER FUND ADVANCES	69154	
TEHZIBUL AKHLAQ	374156		ADVANCE FOR MEDICAL STUDENTS	4843	73997
RECOVERIES SUSPENSE AS PER ANNEXURE 4	8274957		<b><u>SCHOLARSHIP ACCOUNT</u></b>		
U.G.C. INCENTIVE FOR ADDITIONAL RESOURCES	1212895		SCHOLARSHIPS OTHER THAN BACK WARD		758852
INTER FUND ADVANCES	121348470	307426735	BACKWARD CLASS STUDENTS SCHOLARSHIP (U. P. GOVT.)		101320
EXCESS OF RECEIPT OVER EXPENDITURE IN MAINTENANCE GRANT ACCOUNT		66968075			

1	2	3	4	5	6
SALARIES & ALLOWANCES		58885463	<u>BIBI FATIMA WAQF</u>		
SPECIAL REPAIR		530221	EXCESS OF EXPENDITURE OVER RECEIPTS		227
ARREAR OF NON TEACHING STAFF		1113950	<u>CLOSING BALANCES</u>		
COLLABORATION ARRANGEMENT CHARGES FOR DUBAI CENTRE		2057177	MAINTENANCE GRANT ACCOUNT		20688701
UN-INTERRUPTED POWER SUPPLY		2000000	<u>CHAIR IN RURAL ECONOMICS</u>		
<u>DEVELOPMENT GRANT ACCOUNT</u> CAPITALISED VALUE OF THE GRANT RECEIVED FROM THE UNIVERSITY GRANTS COMMISSION FOR :-			STATE BANK OF INDIA A.M.U. BRANCH		2956
			<u>DEPOSIT ACCOUNT</u>		
BUILDING	342819550		STATE BANK OF INDIA A.M.U. BRANCH		24961705
BOOKS	91346707		SYNDICATE BANK, EXTENSION COUNTER		5449
EQUIPMENTS	577665610		<u>PROVIDENT FUND ACCOUNTS</u>		
FURNITURE	7564487		S. B. ACCOUNT & CURRENT ACCOUNT	3603011	
RECOVERIES SUSPENSES (AS PER ANNEXURE TO STATEMENT NO. 4)	2938968		ALLAHABAD BANK, A.M.U. BRANCH	23665	
INTER FUND ADVANCES	13615292		POST OFFICE, SAVING BANK	2258	
INTEREST ON INVESTMENTS	18594689				3628934

1	2	3	4	5	6
			<u>MEDICAL COLLEGE FUNDS</u>		
UPGRADATION D/O TASHREEH -WA-MUNAFEUL AZA, A.K. TIBBIYA COLLEGE	119		STATE BANK OF INDIA A.M.U. BRANCH		197497
UPGRADATION D/O AMRAZ-E- NISWA A. K. TIBBIYA COLLEGE	351		<u>Dr. WALI MOHD WAQF</u> <u>ALAL-AULAD ACCOUNT</u>		
SUSPENSE ACCOUNT	8483	1054554256	STATE BANK OF INDIA A.M.U. BRANCH		71032
<u>DEVELOPMENT GRANT</u> <u>SCHOLARSHIP ACCOUNT</u>			<u>GOLDEN JUBILEE FUND</u>		
DEPOSIT ACCOUNT OF THE GRANTS RECEIVED FROM THE COUNCIL OF SCIENTIFIC & INDUSTRIAL RESEARCH	2779637		STATE BANK OF INDIA A.M.U. BRANCH		26077
DEPOSIT ACCOUNT OF THE GRANT RECEIVED FOR SCHOLARSHIP FROM VARIOUS AGENCIES (MISC. SCHEME)	2054160		<u>PERMANENT ISLAMIC</u> <u>SOLIDARITY FUND</u>		
EXCESS OF RECEIPT OVER EXPENDITURE	2146536	6980333	SYNDICATE BANK, A.M.U. EXTENSION COUNTER <u>BIBI FATIMA WAQF</u>		130601
			STATE BANK OF INDIA A.M.U. BRANCH		73696
			<u>SCHOLARSHIP ACCOUNTS</u>		
			ALLAHABAD BANK, A.M.U. BRANCH		1414290

1	2	3	4	5	6
<b>DEPOSIT ACCOUNTS</b>			<b>SCHOLARSHIP ACCOUNT</b>		
CAPITALISED VALUE OF THE GRANTS AND DONATIONS RECEIVED FROM :-			(BACKWARD CLASS STUDENTS) (U. P. GOVT.)		143542
FORD FOUNDATION	2194321		<b>DEVELOPMENT GRANT SCHOLARSHIP ACCOUNT</b>		
KUWAIT GOVERNMENT	100000		STATE BANK OF INDIA, A.M.U. BRANCH		6980333
ISLAMIC REPUBLIC OF IRAN	113000		<b>A.M.U. STUDENTS WELFARE FUND</b>		
SHAH SAUD DONATION	1199275		STATE BANK OF INDIA, A.M.U. BRANCH		3827373
CONSTRUCTION OF 100 ROOMS	1039103		<b>A.M.U. DEVELOPMENT CORPUS FUND</b>		
DONATION FROM HAJI IBRAHIM ISMAIL	109841		STATE BANK OF INDIA, A.M.U. BRANCH		102074
ENHANCED INCOME FROM N.R.I. CONTRIBUTION FOR ADMISSION TO M. B. B. S.	12944273		<b>REVOLVING FUND OF HOUSE BUILDING ADVANCE TO THE STAFF</b>		
DENTAL COLLEGE	30583876		STATE BANK OF INDIA A.M.U. BRANCH		130151
HAJI SAUD ABDUL AZIZ AL-BABTAIN FOR CONSTRUCTION OF SCHOOL	1034581				

1	2	3	4	5	6
Dr. HASAN KAMAL (FOR MODIFICATION AND CONSTRUCTION OF UNION SCHOOL BUILDING)	1510093				
DONATION FROM SHAKTI RAIS	50000				
DONATION FROM H.E.M.OBAID	200000				
DONATION FROM U.A.E. FOR OPENING OF NEW COURSES ( FOR ENGG. COLLEGE )	3379102				
DONATION FROM HOLINESS SYEDNA BURHANUDDIN FOR S. T. HIGH SCHOOL	785422				
CAPITAL FOR DEVELOPMENTAL ACTIVITIES OF THE UNIVERSITY :-					
DONATION FROM DAWAKHANA TIBBIYA COLLEGE	3335067				
DONATION FROM Dr. SHANKAR DAYAL SHARMA (PRESIDENT OF INDIA) FOR GOLD MEDAL	15000				

1	2	3	4	5	6
Mr. ISHRAT HUSAIN USMANI FOR SCHOLARSHIP	26140				
LATE Mr. MOHD AMJAD ALI FOR PURCHASE OF LIBRARY BOOKS	625707				
DONATION FROM S. FAROOQ (ZAKAT FUND)	264856				
Mr. SABIH AHMAD KAMALI	180503				
JAMMU & KASHMIR GOVERNMENT	696820				
AWARD IN THE NAME OF SOHAIL AHMAD	2296				
DONATION FROM AFSARI BEGUM	1579534				
DONATION FROM USHA K. BAVEJA	16500				
DONATION FROM KHURSHEED ALAM KHAN	8000				
DONATION FROM SAEEDULLAH KHAN FOR DENTAL COLLEGE	137165				

1	2	3	4	5	6
DONATION FROM S. R. ALI ZAIDI	286331				
DONATION FROM OLD BOYS ASSOCIATION, KANPUR	53020				
UNIVERSITY GUEST HOUSE (FOOD CHARGES)	1066268				
DONATION FROM DAWAKHANA TIBBIYA COLLEGE & S. S. MART	593267				
P. N. KAULA	154289				
BOYS FUND, CITY HIGH SCHOOL	5018510				
GIRLS FUND A.M.U. GIRLS HIGH SCHOOL	7707083				
CITY GIRLS HIGH SCHOOL	3516618				
DEVELOPMENT CHARGES FOR SPECIAL WARD, J. N. M. C. HOSPITAL	17053664				
BOOK BANK ENGG. COLLEGE AND TECHNOLOGY	2800568				

1	2	3	4	5	6
<b>MISCELLANEOUS GRANTS &amp; DEPOSIT</b>					
PROJECT NO. 644 DEPTT. OF BIOTECHNOLOGY UNDER Dr. SALAHUDDIN SIDDIQUI	1276				
STUDIES ON MINOR FOREST OIL SEED UNDER Dr. S. M. OSMAN, DEPTT. OF CHEMISTRY	22954				
SECURITY DEPOSIT	10526908				
MISCELLANEOUS CREDIT BALANCES AS PER ANNEXURE TO STATEMENT NO. 4	28306382				
VICE-CHANCELLOR'S FUND	34721467				
REVOLVING FUND DEPTT. OF RADIO DIAGNOSIS	26797046				
DONATION FROM JUMA-AL-MAJID ESTABLISHMENT (DUBAI)	107954				
DONATION FROM KIRIK R SMITH BEQUEST OF Dr. ALFRAD C GRAFIL	259187				
DONATION FROM GIRLS HOSTEL AMU ALUMNI DUBAI UAE	2400000				



1	2	3	4	5	6
DONATION FROM ABDUL WASE FOR Prof. NAZIR AHMAD	50000				
DONATION FROM KALIM KWAJA V.P., ASSOC. OF INDIAN MUSLIM OF AMERICA	60000				
DONATION OF GIFTED BOOKS TO M. A. LIBRARY	<u>1012984</u>	204646251			
<u>PROVIDENT FUND ACCOUNT</u>					
PROVIDENT FUND	974360483				
REFUNDABLE RECEIPT	1568401				
INTER FUND ADVANCES	<u>1943279</u>	977872163			
<u>MEDICAL COLLEGE FUND</u>					
CAPITALISED VALUE OF DONATION AND RECEIPTS		6184324			
<u>Dr. WALI MOHD WAQF FUND</u>					
CAPITALISED VALUE OF DONATION	748982				
EXCESS OF RECEIPTS OVER EXPENDITURE	<u>55881</u>	804863			

1	2	3	4	5	6
<b><u>GOLDEN JUBILEE FUND</u></b>					
CAPITALISED VALUE OF DONATION		244674			
<b><u>SHEIKH ZAYED INSTITUTE OF PETROLEUM AND TECHNOLOGY</u></b>					
CAPITALISED VALUE OF DONATION RECEIVED	5275376				
INTEREST EARNED	<u>651833</u>	5927209			
<b><u>PERMANENT ISLAMIC SOLIDARITY FUND</u></b>					
CAPITALISED VALUE OF THE DONATION	1012653				
EXCESS OF RECEIPTS OVER EXPENDITURE	<u>178167</u>	1190820			
<b><u>BIBI FATIMA WAQF</u></b>					
CAPITALISED VALUE OF DONATION		126012			

1	2	3	4	5	6
<b>STATE BANK OF INDIA,</b>					
<b><u>ENDOWMENT FOR SETTING UP</u></b>					
<b><u>A CHAIR IN RURAL ECONOMICS</u></b>					
CAPITALISED VALUE OF DONATION		2956			
<b><u>A.M.U. REVOLVING FUND FOR</u></b>					
<b><u>HOUSE BUILDING ADVANCE</u></b>					
CAPITALISED VALUE OF THE AMOUNT RECEIVED FROM U.G.C. / TRANSFERRED FROM DEPOSIT ACCOUNT / RECOVERIES	21406002				
EXCESS OF RECEIPTS OVER EXPENDITURE	<u>23227247</u>	44633249			
<b><u>SCHOLARSHIP ACCOUNTS</u></b>					
CAPITALISED VALUE OF THE SCHOLARSHIP		2173142			
<b><u>A.M.U. DEV. CORPUS FUND</u></b>					
CAPITALISED VALUE OF THE DONATION	3026410				
EXCESS OF RECEIPTS OVER EXPENDITURE	<u>18689</u>	3045099			

1	2	3	4	5	6
<b>SCHOLARSHIP ACCOUNTS</b>					
<b>(BACKWARD CLASS STUDENTS)</b>					
<b>(U.P. GOVT.)</b>					
CAPITALISED VALUE OF DONATION RECEIVED		244862			
<b>STUDENTS WELFARE FUND</b>					
CAPITALISED VALUE OF DONATION RECEIVED		15197464			
EXCESS OF RECEIPTS OVER EXPENDITURE		2913185	18110649		
CLOSING BALANCE					
SHEIKH ZAID INSTITUTE OF PETROLEUM & TECHNOLOGY			38696		
M.U. DEVELOPMENT GRANT ACCOUNT			13777539		
GRAND TOTAL:		2876782435			2876782435
<b>Dr. Finance Officer</b> (Acceptance) Finance & Accounts Deptt. A. M. U., Aligarh			<b>Finance Officer</b> Aligarh Muslim University (S. Shafiq Ahmad) ALIGARH Finance Officer		

**Audit Certificate**

I have examined the Income and Expenditure Account for the year ended 31<sup>st</sup> March 2004 and the Balance Sheet as on 31<sup>st</sup> March 2004 of the Aligarh Muslim University, Aligarh. I have obtained all the information and explanations that I have required and, subject to the observations in the appended Audit Report, which inter alia contains the following observations:

1. Understatement of fixed assets by Rs. 2.82 crore [Para 2.1 (b)];
2. Debit and credit balances of non-recurring grants lying unregularised [Para 2.4];
3. Receipts and Payments Account not prepared in prescribed proforma [Para 3.2];

I certify as a result of my audit, that in my opinion, these accounts and Balance Sheet are properly drawn up so as to exhibit a true and fair view of the state of affairs of Aligarh Muslim University, Aligarh according to the best of information and explanations given to me and as shown in the books of the organisation.

Place : Allahabad  
Date : 05.03.2005

Princip

Principal Accountant General (Civil Audit)  
Uttar Pradesh